

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कोविड-19 के दौरान ब्लैक हिस्ट्री मंथ आभासी तौर पर मना रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 फरवरी, 2021) – फरवरी के महीने के दौरान, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, शहर, प्रांत और देश में, ब्रैम्पटन के ब्लैक समुदाय के द्वारा किए हुए, अनगिनत सांस्कृतिक, आर्थिक और दयापूर्ण किए गए योगदानों का जश्न मनाने के लिए ब्लैक हिस्ट्री मंथ (Black History Month) को सम्मानित करती है।

समुदाय में हिमायती, चैंपियन और इनोवेटर्स को सम्मानित किए जाने के लिए लोग, मेयर पैट्रिक ब्राउन के मेकिंग ब्लैक हिस्ट्री अवार्ड्स (Making Black History Awards) के लिए निवासियों को नामांकित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/BHM2021](http://www.brampton.ca/BHM2021) पर जाएं।

कोविड-19 (COVID-19) के कारण, इस वर्ष गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन, ऑनलाइन किया जाएगा। प्रोग्रामिंग में शामिल हैं:

- सन लाइफ फाइनेंशियल (Sun Life Financial), लोकल ब्लैक कलाकारों द्वारा साप्ताहिक प्रदर्शन, वर्चुअल परफॉर्मेंस सीरीज (Virtual Performance Series) पेश कर रहे हैं
- ब्लैक मेकर्स मार्केट (Black Makers Market), ब्लैक व्यक्तियों के स्वामित्व वाले कारोबार पेश कर रही है
- लोकल योगा इंस्ट्रक्टर मैथ्यु बोनस (Matthew Bonas) की मेजबानी में तंदरुस्ती संबंधी कार्यक्रम
- अज़ेलिया हार्ट की मेजबानी में, बेस्ट एंड ब्लैक इन ब्रैम्पटन फूड टूर (Best and Black in Brampton Food Tour)
- महामारी के दौरान रचनात्मक रहना, अपने कैरियर को आगे बढ़ाना, ब्लैक लाइव्स मैटर (Black Lives Matter) और मज़बूत ब्लैक लीडरशिप जैसे विषयों पर, ब्रैम्पटन के जोन्स एंड जोन्स प्रोडक्शंस (Jones & Jones Productions) द्वारा आयोजित, पैनल विचारविमर्श

सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/BHM2021](http://www.brampton.ca/BHM2021) पर जाएं।

### ब्लैक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कॉन्फरेंस

9 और 10 फरवरी को होने वाली यह ब्लैक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कॉन्फरेंस (Black Political Empowerment Conference), ब्लैक राजनीतिक लीडर्स और सहयोगियों के साथ, सूचनात्मक और प्रेरणादायक बातचीत पेश करेगी। यह बातचीत, प्रणालीगत जातिवाद, सामाजिक, शिक्षात्मक और कार्पोरेट असमानता को दूर करने के प्रति काम करने के साधन के तौर पर, ब्लैक राजनीतिक कैपिटल बनाने के जरूरी महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही, यह व्यक्तियों, परिवारों और युवाओं को, राजनीति के क्षेत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। रजिस्टर करने के लिए [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।

### ब्लैक यूथ लीडरशिप कॉन्फरेंस

हमारे शहर में युवाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं और सफलता के लिए तैयार होने के लिए बहुत-सा काम करना पड़ेगा। 26 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे होने वाला यह कार्यक्रम, युवाओं को ऐसा प्लेटफार्म देने का अवसर है, जहां वे अपनी चुनौतियों,

चिंताओं और सपनों के बारे में चर्चा और उन्हें साझा कर सकते हैं। कॉन्फरेंस, उनकी कुछेक चुनौतियों के लिए समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही, यह उनकी सफलता में सहायता करने के तरीके ढूंढने में मदद करने के लिए, उन्हें वार्तालाप में शामिल करेगी। युवाओं को बोलने के लिए प्लेटफार्म प्रदान करने के अलावा, कॉन्फरेंस पेशेवर और प्रेरक स्पीकरों को सुनेगी। यह कॉन्फरेंस, युवाओं और स्कूल बोर्डों की पहुंच में है। हिस्सा लेने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया [economicantiblackracism@brampton.ca](mailto:economicantiblackracism@brampton.ca) पर संपर्क करें।

## हवाले

“ब्रैम्पटन के ब्लैक समुदाय ने, इस देश को सांस्कृतिक तौर पर विविध, दयापूर्ण और खुशहाल राष्ट्र बनाने के लिए बहुत काम किया है, जो आज यह है। हमें, कार्यक्रमों का महीने-भर का कैलेंडर पेश करने पर गर्व है, जो ब्लैक हिस्ट्री मंथ को मान्यता देता है और इसका जश्न मनाता है। महत्वपूर्ण बातचीत और योजनाबद्ध गतिविधियों में हिस्सा लेकर, हम अधिक समावेश वाला शहर बनाते हुए, हमारे समुदाय के ब्लैक सामुदायिक मेम्बरों के महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करने के लिए काम करते हैं।”

– पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारी पूरी सिटी में ब्लैक अफ्रीकी और कैरेबियन समुदायों ने, ब्रैम्पटन के जोशीले सांस्कृतिक मोजैक और हमारी लोकल अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दिया है। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल में चुनी गई पहली ब्लैक महिला के तौर पर, मुझे अर्थपूर्ण तरीकों से ब्लैक हिस्ट्री मंथ को मान्यता देने का नेतृत्व करने में, काउंसिल के सहकर्मियों और स्टाफ के साथ जुड़ने पर गर्व है। इकट्ठे मिलकर, हम ब्रैम्पटन की अतीत और वर्तमान की कहानी में, सामुदायिक मेम्बरों के कई योगदानों को सम्मानित कर रहे हैं, जो सामुदायिक लीडर्स की अगली पीढ़ी के लिए रास्ते खोलते हैं।”

– शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वाईस 7 और 8, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है। ब्लैक हिस्ट्री मंथ को मान्यता देकर और इसका जश्न मनाकर, हम शहर की विविधता को मान्यता दे रहे हैं। ब्लैक इतिहास, दुनिया का इतिहास है। यह उपलब्धि, नवीनता, संस्कृति और मानवता की जड़ों वाला, प्रभावशाली और संपन्न इतिहास है। इस माह, हम हमारे से पहले लोगों की कहानियों और विरसे पर विचार करने पर समय लगाते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं – यह आशा भी करते हैं कि अधिक बराबरी वाला, निष्पक्ष और समावेश वाला देश बनाने में मदद में, हमारी भूमिका निभाने के लिए एकता, सम्मान और प्रतिबद्धता की अधिक समझ प्रदान करेगा।”

– गविनेथ चैपमैन (Gwyneth Chapman), सीनियर एडवाइजर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एंटी-ब्लैक रेसिज्म यूनिट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इस वर्ष के ब्लैक हिस्ट्री मंथ के कार्यक्रम, पूरे गर्व के साथ ब्रैम्पटन के ब्लैक समुदाय और हमारे शहर के सांस्कृतिक मोजैक में इसके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हैं और इसका जश्न मनाते हैं। पूरा महीना आभासी कार्यक्रम और योजनाबद्ध गतिविधियां, पूरे शहर के विविध समूहों के साथ जुड़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हिमायत करने और हमारे जोशीले ब्लैक समुदाय के बारे में अधिक जानने का अवसर हैं। हम हर किसी को, पूरे महीने के दौरान योजनाबद्ध कई प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करते हैं।”

– डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)